

March 14, 2020

Asst. Vice President, Listing Deptt.
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Plot C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
MUMBAI - 400 051
Scrip Code: HEROMOTOCO

The Secretary
BSE Limited
25th Floor,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
MUMBAI - 400 001
Scrip Code: 500182

Re: Disclosure under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Sub: Submission of newspaper advertisement

Dear Sirs,

Please find enclosed herewith a copy of the newspaper advertisement published regarding the requests for issue of duplicate share certificates in lieu of original share certificates that are reported to be lost and not traceable.

Kindly note that duplicate share certificates will be issued to the respective shareholders in case no objections are received on the advertisement.

This is submitted for your information and records.

Thanking you,

For Hero MotoCorp Ltd.


(Neerja Sharma)
Company Secretary & Chief Compliance Officer


Encl.: As above

Economists predict 48 paise to cut 50-75% on RBI assurance

SHRITAMA BOSE & BHAVIK NAIR
Mumbai, March 13

AMID FEARS AROUND the growth slowdown being intensified by the spread of Covid-19 and inflation easing in February, the markets are expecting a repo rate cut anytime now. Similar actions by a number of central banks around the world, that are widely being seen as acting in concert, have also fuelled expectations in India.

Economists and money-market watchers — some of whom were till last week expecting the Reserve Bank of India (RBI) to act on the liquidity front — now anticipate action on rates as well. "The cuts by central banks across the world clearly seem part of a coordinated effort. Now that we have seen a fall in the CPI (con-



sumer price index) rose in February, the RBI policy committee (\$5.14 billion) on to that a capital markets. it could investors remained said a senior in Indian capital foreign ba fifth straight day, eased to 6 more than ₹4,700 from 7.59% day amid a global

Over the weeks, the among other rates by 50. On Friday, the bank low-

ernment bond yield was higher at 6.32%.

Meanwhile, the global crude oil benchmark Brent Futures surged nearly 6% to trade at \$35.11 per barrel.

The dollar index, which gauges the greenback's strength against a basket of six currencies, rose 0.44% to 97.90.

The RBI has said it is closely monitoring the current global situation and assured that it will take all steps to keep markets adequately liquid and stable.

"The RBI is closely and continuously monitoring the rapidly evolving global situation and will take all necessary

measures to ensure that money, debt and forex markets remain adequately liquid and stable, and continue to function normally," the central bank said in a statement.

The RBI earlier also announced measures to infuse liquidity in the foreign exchange market, including the US dollar swaps worth \$2 billion.

On the equity front, recovering over 5,380 points, from its intra-day low of 29,388.97, the BSE Sensex ended 1,325.34 points or 4.04% higher at 34,103.48.


Similarly, the NSE Nifty settled 365.05 points, or 3.81%, up at 9,955.20.

Robust risk management in place to deal with volatility

SEBI BUREAU
Mumbai, March 13

MARKETS REGULATOR SEBI on Friday said stock exchanges and market regulator have a robust risk management framework in place and are prepared to take suitable action to deal with the market volatility. However, market participants said that the Securities and Exchange Board of India (Sebi) could have banned short-selling like China did to protect the markets from a sharp fall. China banned short-selling in the first week of February.

G Chokkalingam, founder and managing director at Equinomics Research, said, "China had banned short-selling in February and have avoided major chaos. Today Chinese markets are the best performing market in the world." He also added that if this fear continuous and there is further spread of novel coro-



there is a fear of a speculative bubble, markets may experience pressure. "If regulators do not act seriously and sellers actually panic, I think Sebi should have issued the ban on short-selling."

Sebi on Friday said that overall the Indian market has been moving up and other global markets are also showing a downward trend due to the coronavirus outbreak. "The regulator is closely monitoring the situation and will take all necessary measures to ensure that the market remains stable and liquid."

Hero MotoCorp Limited
 Regd. Office : The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj - Phase-II, New Delhi - 110070
 CIN: L35911DL1984PLC017354 | Phone: 011-011-46044220 | Fax: 011-46044399
 E-mail: secretarialho@heromotocorp.com | Website: www.heromotocorp.com

PUBLIC NOTICE FOR ISSUE OF DUPLICATE SHARE CERTIFICATES

Members of the general public and existing shareholders of Hero MotoCorp Ltd. ('Company') are hereby informed that the original Share Certificates, details of which are given hereunder have been reported lost/misplaced/stolen/not received and that pursuant to requests received from concerned shareholders, the Company intends to issue duplicate share certificates in lieu of the said original Shares Certificates in their favour:

S. No.	Folio No.	Shareholders Name	Distinctive Nos.		Certificate No.(s)	No. of Shares
			From	To		
Shares of Face Value of Rs.10/- each						
1	HML0095136	G S CHADHA	12058879	12058888	183262	10
			18568695	18568696	253607	02
			34245070	34245081	393779	12
2	HML0157232	PRUTHESH P SHAH DIVYESH P SHAH	33608893	33608894	375842	50
			33608943	33608992	375843	50
3	HML0100640	SHOBHANA JEKISANDAS PATEL	34247942	34247991	393856	50
			300366	300415	6017	50
4	HML0105520	VJAY GULECHHA	15311717	15311751	168573	35
5	HML0140729	SOHAN LAL GUPTA	33669418	33669467	377636	50
6	HML0057187	LAXMAN DASS MALIK	2875116	2875165	57512	50
			16174670	16174679	227793	10
			16174680	16174681	227794	02
			20737521	20737570	336813	50
			20737571	20737582	336814	12
7	HML0109508	SUNITA RANI	15515716	15515765	174328	50
			34261112	34261161	394156	50
Shares of Face Value of Rs.2/- each						
8	HML0038489	KUSUMBEN JUVADIYA	45102306	45102405	508919	100
9	HML0148860	KAILASH CHAND GUPTA MEENA DEVI GUPTA ASHOK KUMAR GUPTA	161463836	161463885	520663	50
			159010536	159010575	527191	40
			46093596	46094215	510863	620
12	HML0054279	HUKUMCHAND KOTHADIA	45929206	45929265	529809	60

Any person having objections to the issue of duplicate Share Certificates, as mentioned herein above, may submit the same, in writing, with the Company marked to the 'Secretarial Department' at its Registered Office within 15 days from the date of publication of this Notice. In the meanwhile, members of the public are hereby cautioned against dealing in the above mentioned Share Certificates.

For Hero MotoCorp Ltd.
Sd/-
Neerja Sharma
Company Secretary & Chief Compliance Officer

Place : New Delhi
Date : 13.03.2020

कोरोना मरीजों की देखभाल करने वाले नर्सों से घर खाली कराया

कोट्टायम, 13 मार्च (भाषा)।

केरल के कोट्टायम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की देखभाल कर रहे तीन पुरुष नर्सों को उनके मकान मालिक ने बाहर निकाल दिया है।

तीनों नर्स अलग-अलग पाली में काम कर रहे थे। उनमें से एक ने बताया कि जब वे अपनी पाली पूरी करके शुरुआत सुबह आराम करने के लिए घर पहुंचे तो मकान मालिक ने उनको घर खाली करने को कह दिया।

पंजाब नैशनल बैंक

भरोसे का पतीक!

कच्चा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, पंजाब नैशनल बैंक की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी ने सिक्युरिटी इंजेरान एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेशियल एसेट्स एण्ड इनफोर्मेडिटी इंटरस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सिक्युरिटी इंटरस्ट 2002 के साथ 60 दिनों के भीतर नोटिस में निहित रकम की अदायगी हेतु एक डिमांड नोटिस जारी किया था। ऋणी के द्वारा रकम की अदायगी न करने के कारण निम्नलिखित ऋणकर्ता एवं जन साधारण को नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के समक्ष अंकित तिथि को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधोलिखित सम्पत्ति का मौखिक कब्जा दिनांक 06, मार्च, 2020 को ले लिया है। विशेषतः ऋणी एवं जन साधारण को एतद् द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे संबंधित परिसम्पत्ति की खरीद फरोख्त न करें तथा इन परिसम्पत्ति के किसी भी क्रय विक्रय के लिए यहाँ नीचे खाते के समक्ष रकम उस पर देय ब्याज के लिए पंजाब नैशनल बैंक के प्रभार अधीन होंगे। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	शाखा का नाम	खाते का नाम व नं०	ऋणकर्ता व गारंटर का नाम और पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	(15/2) मांग नोटिस की तिथि मांग नोटिस के अनुसार कच्चा राशि	मौखिक कब्जे की तिथि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम
1.	मेरठ कैंट, अन्व लेन, मेरठ	मैसर्स मातेरवरी पैस्ट्रीसाईड लि- खाता संख्या: 0318008700010127 and 031800NG06003532	मैसर्स मातेरवरी पैस्ट्रीसाईड लि- (ऋणकर्ता) श्री अशोक कुमार पुत्र श्री टेक चंद (निदेशक / गारंटर), श्री अभिषेक जिंदल (निदेशक / गारंटर), श्रीमति अंजलि जिंदल (निदेशक / गारंटर) और श्रीमती सुमन पत्नी श्री अशोक कुमार गारंटर	1 - औद्योगिक फैक्टरी भवन, खसरा नंबर 158 का भाग, ग्राम अछरीडा, गंगोल रोड, मेरठ, क्षेत्रफल 334.44 वर्ग मीटर, मैसर्स मातेरवरी पैस्ट्रीसाईड लि के नाम, सीमायें- पूर्व- अन्य की संपत्ति, पश्चिम- श्री सुनील जोशी की संपत्ति, उत्तर- रोड 24 चौड़ी, दक्षिण- छात्रावास 2- आवासीय फ्लैट नं. जीएफ-301 पंचवटी एन्क्लेव, सेक्टर- 4 ए, शताब्दी नगर, मेरठ, क्षेत्रफल 112.50 वर्गमीटर, श्री अशोक कुमार पुत्र श्री टेक चंद और श्रीमती सुमन पत्नी श्री अशोक कुमार के नाम। सीमायें- पूर्व- सड़क, पश्चिम- सर्विस लेन, उत्तर- फ्लैट नंबर जी एफ-306, दक्षिण- रोड	06.08.2018 ₹. 15052496.76 + ब्याज व अन्य खर्च 01.04.2018 तक	06.03.2020 सांकेतिक कब्जे की तिथि 15.11.2018	सुधीर कुमार
दिनांक:- 13.03.2020				स्थान:- मेरठ	प्राधिकृत अधिकारी		

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 2 गेट प्लाजा, प्लॉट नं. 2, नेल्सन मंडेला रोड, चमत् कृष्ण - फेज II, नई दिल्ली - 110070
CIN: L35911DL1984PLC017354 | फोन: 011-46044220 | फैक्स: 011-46044399
ईमेल: secretarial@heromotocorp.com | वेबसाइट: www.heromotocorp.com

डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सार्वजनिक सूचना
आम जनता के सदस्यों और हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ('कंपनी') के मौजूदा शेयर धारकों को सूचित किया जाता है कि मूल शेयर प्रमाण पत्र (जिसका विवरण नीचे दिया गया है) चोरी हो गए हैं / नहीं मिले हैं / गुम हो गए हैं, ऐसी सूचना अनुसार चिह्नित शेयरधारकों से प्राप्त हुई हैं। कंपनी उनके पक्ष में मूल शेयर प्रमाण पत्र के पक्ष में डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का इरादा रखती है:

क्र. सं.	फोटोनो नं.	शेयरधारकों का नाम	डिस्ट्रिक्टिव नं.		प्रमाणपत्र संख्या	शेयरों की संख्या
			से	तक		
शेयरों के अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रत्येक						
1	HML0095136	जी एस ब्रह्मा	12058879	12058888	183262	10
			18568695	18568696	253607	02
			34245070	34245081	393779	12
2	HML0157232	पुतेष पी शाह	33608893	33608942	375842	50
		दिव्येश पी शाह	33608943	33608992	375843	50
3	HML0100640	शोभना जेकिसनदास पटेल	34247942	34247991	393856	50
			300366	300415	6017	50
4	HML0105520	विजय गुलेच्छा	15311717	15311751	168573	35
5	HML0140729	सोहन लाल गुप्ता	33669418	33669467	377636	50
6	HML0057187	लक्ष्मण दास मलिक	2875116	2875165	57512	50
			16174670	16174679	227793	10
			16174680	16174681	227794	02
			20737521	20737570	336813	50
			20737571	20737582	336814	12
7	HML0109508	सुनीता रानी	15515716	15515765	174328	50
			34261112	34261161	394156	50
शेयरों के अंकित मूल्य ₹ 2/- प्रत्येक						
8	HML0038489	कुसुमबेन जिजवादिदा	45102306	45102405	508919	100
9	HML0148860	कैलाश चंद गुप्ता मीना देवी गुप्ता अशोक कुमार गुप्ता	161463836	161463885	520663	50
10	HML0105520	विजय गुलेच्छा	159010536	159010575	527191	40
11	HML0057187	लक्ष्मण दास मलिक	46093596	46094215	510863	620
12	HML0054279	हुसमचंद कोठारीआ	45929206	45929265	529809	60

किसी भी व्यक्ति को अगर कंपनी द्वारा डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने से आपत्ति है तो इस सूचना के प्रकाशन को तारीख से 15 दिनों के भीतर लिखित में कंपनी 'सचिवीय डिपार्टमेंट' को प्रस्तुत करते हुए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भेजें। इस बीच, जनता के सदस्यों को ऊपर उल्लेख शेयर प्रमाण पत्रों में निवेश करने के खिलाफ आगाह किया जाता है।

कृते हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड
हस्ता./-
नीरजा शर्मा
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 13.03.2020
कंपनी सचिव एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी

पंजीकृत कार्यालय: राधिका, 2रा तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात, पिन कोड- 380009, शाखा कार्यालय: एडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लि., 3 पार्क स्ट्रीट रोड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के ऊपर, पिक सिटी पेट्रोल पम्प के सामने, खासा कोठी, जयपुर, राजस्थान-300201

कच्चा सूचना
जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 4) के अंतर्गत एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित रूप में जारी कर संबंधित ऋणधारक को उक्त सूचना को प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि के साथ भुगतान की वास्तविक तिथि तक सभी लागतों, चार्जों, खर्च आदि को वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

उक्त ऋणधारक/ सह-ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, सह-ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यहाँ नीचे वर्णित रूप में अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमवली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हीं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित तिथि को यहाँ नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहाँ नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों को किसी भी तरह का व्यवसाय संबंधित तिथि से आगे के ब्याज, लागतों एवं चार्जों के साथ उसमें निहित राशि के लिए एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक तथा सह-ऋणधारकों/ गारंटोरों ऋण खाता संख्या, ऋण राशि, प्रतिभूति का विवरण, मांग सूचना तिथि, मांग की गई राशि, कच्चा की तिथि का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	ऋणधारक/ सह-ऋणधारक/ गारंटर का नाम एवं पता, 2) ऋण खाता संख्या, 3) ऋण राशि: 4) प्रतिभूतियों का सं. विवरण; 5) मांग सूचना तिथि; 6) आईएनआर में मांग की गई राशि; 7) कच्चा की तिथि का विवरण इस प्रकार है:
1.	1. ऋणधारक/ सह-ऋणधारक/ गारंटर का नाम: एबीएस ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, 4-5, चेतनाम होटल के निकट, अम्बाचारी झोटावा के सामने, जयपुर- 302013, साध ही: डी-23, बाहरी नगर, निवारक रोड, झोटावा, जयपुर-302002, अमीन अली खान, पुत्र हकीम खान, मोहम्मद आरिफ खान तथा समीन बानो, सभी: डी-23, बाहरी नगर, निवारक रोड, झोटावा, जयपुर-302002, साध ही: 4-5, चेतनाम होटल के निकट, अम्बाचारी झोटावा के सामने, जयपुर- 302013, साध ही: प्लॉट नं. 163, उद्योग नगर, कलवार निवारक रोड, झोटावा, जयपुर-302002, साध ही: जी-2, 132 बाल विहार कॉलोनी, कलवार बाई पास के निकट, कलवार रोड, झोटावा, जयपुर-302001, 2. ऋण खाता संख्या: 982332 तथा 1636838, 3. ऋण राशि: ₹. 10500000 (रुपये एक करोड़ पांच लाख मात्र), ऋण खाता संख्या: 982332 द्वारा तथा ₹. 3817135/- (रुपये अड़तीस लाख सत्रह हजार एक सौ पैंतीस मात्र), ऋण खाता सं. 1636838 द्वारा। 4. प्रतिभूति का विवरण: प्लॉट नं. 163, उद्योग नगर, कलवार, निवारक रोड झोटावा, जयपुर-302002, माप 300 वर्ग गार्डन का सभी भाग तथा हिस्सा। साइट प्लान दस्तावेज सं. 201503017102877, बुक नं. 01, बॉल्डम नं. 547, पेज नं. 27 में 6.5.2015 को पंजीकृत, सम्पत्ति की चौकरी: उत्तर प्लॉट नं. 162, दक्षिण प्लॉट नं. 164, पूर्व प्लॉट नं. 168, पश्चिम: 60 फीट चौड़ा रोड, 5) मांग सूचना तिथि: 4.11.2019, 6) मांग की गई राशि: दोनों खाता (क) + (ख) अर्थात ₹. 11147674 (रुपये एक करोड़ पचास लाख सैंतालिस लाख छः सौ चौरास मात्र) 5 नवम्बर, 2019 को अनुप्राणिक खर्च, लागत तथा चार्जों आदि के साथ वास्तविक बसूली तक अनुप्राणित आगे का प्रयाग (7) कच्चा की तिथि: 12.3.2020

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूति परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए कृपया सम्पर्क करें: श्री प्रशांत रावटे: 9928818000 एवं जितेंद्र सिंह 09983291777, एडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लि., 3 पार्क स्ट्रीट रोड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के ऊपर, पिक सिटी पेट्रोल पम्प के सामने, खासा कोठी, जयपुर, राजस्थान-300201

हस्ता./-
स्थान: मुम्बई
तिथि: 14.3.2020
एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के लिए
प्राधिकृत अधिकारी